

**2019-21**  
**Exam : 2021**

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Pass Marks : 36

Candidates are required to give their answers in  
their own words as far as practicable.  
परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।

The questions are of equal value.  
सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं।

Answer five questions, selecting  
one question from each Unit.

प्रत्येक इकाई से एक-एक प्रश्न का चयन  
करते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

**Unit – I**

**इकाई – I**

1. Difference among Assessment, Evaluation and Measurement. Describe the importance and principles of assessment.

मूल्यांकन, आकलन तथा मापन में अन्तर स्पष्ट कीजिए।  
आकलन के महत्व तथा सिद्धान्तों का वर्णन करें।

2. What do you understand by interpretation of Test-Scores ? Differentiate between Norm-Referenced and Criterion Referenced Test.  
परीक्षण-स्कोर की व्याख्या से आप क्या समझते हैं ? मानक-संदर्भित एवं निकष-संदर्भित परीक्षण में अंतर स्पष्ट करें।

**Unit – II**

**इकाई – II**

3. Explain the concept of Self-Assessment and Peer-Assessment ? What are the advantages and disadvantages of Peer-Assessment.  
स्व-आकलन और समूह-आकलन के संप्रत्यय को स्पष्ट करें।  
समूह आकलन की क्या-क्या लाभ और हानियाँ हैं ?

4. Define the concept of Co-operative Learning. Differentiate between Collaborative and Co-operative Learning.  
सहकारी अधिगम के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। सहकारी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम में अंतर बताएँ।

**Unit – III**

**इकाई – III**

5. What do you mean by assessment of cognitive learning ? How its assessment can be done ? Discuss.

संज्ञानात्मक अधिगम के आकलन से आप क्या समझते हैं ?  
इसका आकलन किस प्रकार किया जा सकता है ? वर्णन  
करें ।

6. What do you mean by Semester System ?  
Explain its advantages and disadvantages in  
details.

सेमेस्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं ? इसकी लाभ-हानियों  
की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए ।

**Unit – IV**

**इकाई – IV**

7. Define Achievement Test. How will you  
construct an achievement test ? Write in  
detail.

उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित कीजिए । आप एक  
उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करेंगे ? विस्तार से  
लिखिए ।

8. Calculate Median for the following distribution :  
निम्नलिखित वितरण के लिए मध्यांक की गणना  
कीजिए :

Score / C. L. (प्राप्तांक)	f (आवृत्ति)
80 – 89	6
70 – 79	9
60 – 69	10

Score / C. L. (प्राप्तांक)	f (आवृत्ति)
50 – 59	25
40 – 49	25
30 – 39	10
20 – 29	5
10 – 19	7
0 – 9	3

**N = 100**

**Unit – V**

**इकाई – V**

9. Differentiate between Objectivity and Subjectivity  
of a test.

एक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता एवं विषयनिष्ठता में अन्तर स्पष्ट  
करें ।

10. Write short notes on any two of the following :  
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Menace of Coaching

कोचिंग के दोष

(b) Measure of Central Tendency

केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप

(c) Non-Detention Policy

नो-डिटेंशन पॉलिसी

